

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-तीन			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७		विषय : ग्रुप-‘ए’
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
16.07.2016	1		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	कम्पनी का आशय एवं कम्पनी के प्रकार
18.07.2016	2		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	अंश पूंजी के अर्थ, प्रकार
19.07.2016	3		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	अंश का अर्थ तथा प्रकार
20.07.2016	1	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	विषय परिचय	प्रबन्धकीय लेखाविधि के अर्थ एवं परिभाषा
21.07.2016				कक्षाध्यापन	
22.07.2016	2	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	प्रबन्धकीय लेखाविधि	महत्व, प्रबन्धक यंत्र के रूप में प्रबन्धकीय लेखाविधि
23.07.2016	3	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	प्रबन्धकीय लेखाविधि	प्रकृति, लक्षण एवं क्षेत्र
25.07.2016	4		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	अंश आवेदन व आवंटन के लेखे
26.07.2016	5		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
27.07.2016	6		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र आना
28.07.2016				कक्षाध्यापन	
29.07.2016	4	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	प्रबन्धकीय लेखाविधि	वित्तीय एवं प्रबन्धकीय लेखाविधि में अन्तर
30.07.2016	7		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
01.08.2016	8		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
02.08.2016	9		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
03.08.2016	5	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	वित्तीय विवरण	अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं उद्देश्य
04.08.2016				कक्षाध्यापन	
05.08.2016	6	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	वित्तीय विवरण	प्रकृति, महत्व एवं सीमाएं
08.08.2016	10		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
09.08.2016	11		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	अंशों का हरण एवं लेखे
10.08.2016	12		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
11.08.2016	7	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	वित्तीय विवरण	संघटक एवं लाभ हानि खातों एवं स्थिति विवरणों के
					मदों का स्पष्टीकरण
12.08.2016				कक्षाध्यापन	
13.08.2016	8	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	विश्लेषण एवं निर्वचन से आशय
16.08.2016	13		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	अपहरित अंशों का विभिन्न प्रकार से पुनः निर्गमन
17.08.2016	14		ए-प्रथम	अंशों का निर्गमन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
19.08.2016	15		ए-प्रथम	पूर्वाधिकार अंशों का शोधन	अर्थ एवं विभिन्न प्रकार के लेखे
20.08.2016	9	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	वित्तीय विवरणों का विश्लेषण	रीतियां या उपकण
22.08.2016				कक्षाध्यापन	

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-तीन			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७		विषय : ग्रुप-‘ए’
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-क्रम	अध्याय	शीर्षक
23.08.2016	10	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	अनुपात विश्लेषण	अनुपात विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा
24.08.2016	16		ए-प्रथम	पूर्वाधिकार अंशों का शोधन	अर्थ एवं विभिन्न प्रकार के लेखे
26.8.2016	17		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋणपत्र का अर्थ एवं प्रकार
27.08.2016	18		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋणपत्रों के निर्गमन के लेखे
29.08.2016	11	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	अनुपात विश्लेषण	महत्व एवं सीमाएं
30.08.2016				मूल्यांकन	
01.09.2016	12	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	अनुपात विश्लेषण	अनुपातों का वर्गीकरण
02.09.2016	19		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
03.09.2016	20		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋणपत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में अर्थ एवं लेखे
05.09.2016	21		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋणपत्रों पर ब्याज और इस पर आयकर प्रक्रिया व लेखे
06.09.2016	13	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	लाभदायकता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
07.09.2016				कक्षाध्यापन	
08.09.2016	14	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	लाभदायकता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
09.09.2016	22		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	ऋणपत्रों के भुगतान की विधियां, परिवर्तन द्वारा शोधन
10.09.2016	23		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	सिकिंग फण्ड, अर्थ एवं प्रकार
14.09.2016	24		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
15.09.2016	15	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	लाभदायकता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
16.09.2016				कक्षाध्यापन	
20.09.2016	16	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	लाभदायकता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
21.09.2016	25		ए-प्रथम	ऋणपत्रों का निर्गमन व शोधन	असंचयी सिकिंग फण्ड
22.09.2016	26		ए-प्रथम	लाभों का निपटारा एवं बोनस अंश	विभाजन योग्य लाभ तथा बोनस अंश
23.09.2016	27		ए-प्रथम	लाभों का निपटारा एवं बोनस अंश	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
24.09.2016	17	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	लाभदायकता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
26.09.2016				मूल्यांकन	
27.09.2016	18	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	तरलता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
28.09.2016	28		ए-प्रथम	लाभों का निपटारा एवं बोनस अंश	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
29.09.2016	29		ए-प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	ख्याति का अर्थ, प्रकृति एवं ख्याति को प्रभावित करने वाले
					तत्व
03.10.2016	30		ए-प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	औसत लाभ विधि
04.10.2016	19	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	शोधन क्षमता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-तीन			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७		विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
05.10.2016				कक्षाध्यापन	
06.10.2016	20	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	शोधन क्षमता अनुपात	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
07.10.2016	31		ए-प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	औसत लाभ विधि- उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
08.10.2016	32		ए-प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	अधिलाभ विधि
14.10.2016	33		ए-प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	पूँजीकरण विधि
15.10.2016	21	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	बिक्री अनुपात	स्कन्ध आवर्त अनुपात एवं लेनदार का प्राप्य आवर्त अनुपात
17.10.2016				कक्षाध्यापन	
18.10.2016	22	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	बिक्री अनुपात	लेनदार या देय आवर्त अनुपात
19.10.2016	34		ए-प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	पूँजीकरण विधि
20.10.2016	35		ए-प्रथम	ख्याति का मूल्यांकन	वार्षिकी विधि
21.10.2016	23	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	बिक्री अनुपात	कुल सम्पत्ति आवर्त अनुपात
22.10.2016	24	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	„	कुल सम्पत्ति आवर्त अनुपात
24.10.2016				मूल्यांकन	
25.10.2016	25	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	कोष प्रवाह विवरण से आशय एवं व्याख्या
26.10.2016	36		ए-प्रथम	अंशो का मूल्यांकन	मूल्यांकन का आशय एवं आवश्यकता
02.11.2016	37	„	ए-द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	अंशो के मूल्यांकन की विधियाँ
03.11.2016	26	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	चालू एवं गैर-चालू सम्पत्तियाँ एवं दायित्व
04.11.2016	27	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	„	उद्देश्य, लक्षण एवं महत्व
05.11.2016				कक्षाध्यापन	
08.11.2016	28	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	कोष प्रवाह विवरण के मदों का स्पष्टीकरण
09.11.2016	38		ए-प्रथम	अंशों का मूल्यांकन	सम्पत्ति मूल्यांकन विधि
10.11.2016	39		ए-प्रथम	„	„
11.11.2016	29	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
12.11.2016	30	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	„	„
15.11.2016				कक्षाध्यापन	
17.11.2016	31	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण,,	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
18.11.2016	40		ए-प्रथम	अंशों का मूल्यांकन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
19.11.2016	41		ए-प्रथम	„	आय मूल्यांकन विधि
21.11.2016	32	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	कोष प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
23.11.2016	33	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	आशय, उद्देश्य एवं महत्व

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-तीन			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१५-२०१६		विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
25.11.2016				<i>मूल्यांकन</i>	
26.11.2016	34	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	सीमाएँ एवं रोकड़ प्रवाह विवरण एवं कोष प्रवाह में अन्तर
28.11.2016	42		ए-प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, लाभ-हानि
29.11.2016	43		ए-प्रथम	"	सूत्रधारी कम्पनी से संबन्धित प्रावधान
30.11.2016	35	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	प्रारूप एवं लेखांकन मानक-3
01.12.2016	36	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	"	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
02.12.2016				<i>कक्षाध्यापन</i>	
03.12.2016	37	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
06.12.2016	44		ए-प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	पूँजी संचय एवं ख्याति की गणना
07.12.2016	45		ए-प्रथम	"	अल्प पक्ष की गणना
08.12.2016	38	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	रोकड़ प्रवाह विवरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
09.12.2016	39	श्री नन्दन शर्मा	ए-प्रथम	"	"
12.12.2016				<i>कक्षाध्यापन</i>	
14.12.2016	40	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	आशय, महत्व एवं उद्देश्य
15.12.2016	46		ए-प्रथम	सूत्रधारी कम्पनी	मिश्रित अंतिम खाते का विवरण
16.12.2016	47		ए-प्रथम	"	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
17.12.2016	41	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	समविच्छेद बिन्दु एवं उसका प्रयोग
19.12.2016	42	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	"	अंशदान, लाभ मात्रा अनुपात
20.12.2016				<i>कक्षाध्यापन</i>	
21.12.2016	43	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	"	सुरक्षा बीमा
22.12.2016	48		ए-प्रथम	कम्पनी समापन	अर्थ एवं समापन की विधियाँ
24.12.2016	49		ए-प्रथम	"	निस्तारक के खातों का विवरण
26.12.2016	44	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	समविच्छेद विश्लेषण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
27.12.2016	45	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	"	"
28.12.2016				<i>मूल्यांकन</i>	
29.12.2016	46	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	व्यावसायिक बजट	भूमिका, अर्थ एवं परिभाषा
30.12.2016	50		ए-प्रथम	कम्पनी समापन	पूर्वाधिकार लेनदार एवं स्थिति विवरण
31.12.2016	51		ए-प्रथम	कम्पनियों का एकीकरण	अर्थ परिभाषा, प्रकृति एवं लाभ व हानि
02.01.2017	47	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	बजट एवं बजटन	बजट के उद्देश्य एवं लाभ
03.01.2017	48	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	"	बजट की सामाएँ

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर

कक्षा : बी.कॉम. भाग-तीन			पाठ्यक्रम योजना : सत्र २०१६-२०१७		विषय : ग्रुप 'ए'
दिनांक	व्याख्यान	प्राध्यापक का नाम	ग्रुप-प्रश्नपत्र	अध्याय	शीर्षक
04.01.2017				कक्षाध्यापन	
06.01.2017	49	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	स्थिर एवं लोचदार बजट	अर्थ एवं अन्तर
07.01.2017	52		ए-प्रथम	कम्पनियों का एकीकरण	क्रय, प्रतिफल का निर्धारण
09.01.2017	53		ए-प्रथम	..	लेखांकन की विधियाँ
10.01.2017	50	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	प्रमाप लागत विधि	अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उद्देश्य
11.01.2017	51	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	..	प्रमाप लागत विधि का प्रयोग
12.01.2017				कक्षाध्यापन	
13.01.2017	52	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	प्रमाप लागत विधि	प्रकार एवं विधियाँ
16.01.2017	54		ए-प्रथम	कम्पनियों का एकीकरण	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
17.01.2017	55		ए-प्रथम	..	..
18.01.2017	53	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	प्रमाप लागत विधि	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
19.01.2017	54	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	..	..
20.01.2017				कक्षाध्यापन	
21.01.2017	55	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	बजट एवं बजटन	उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
23.01.2017	56		ए-प्रथम	कम्पनियों का एकीकरण	एकीकरण के विभिन्न लेखे
24.01.2017	57		ए-प्रथम	आंतरिक पुनः निर्माण	अर्थ एवं उसके लेखे
25.01.2017	56	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	बजट एवं बजटन	प्रकृति, प्रकार एवं बजटन की तैयारी
27.01.2017	57	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	..	शून्य आधारित बजट का अर्थ एवं प्रयोग
28.01.2017				मूल्यांकन	
30.01.2017	58	श्री नन्दन शर्मा	ए-द्वितीय	बजट एवं बजटन	शून्य आधारित बजट का अर्थ एवं प्रयोग
31.01.2017	58		..	..	आंतरिक पुनः निर्माण एवं बाह्य पुनः निर्माण